

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिकहरना, ढाका।**

पत्रांक - 1762(अबु) / सिकहरना, ढाका, दिनांक - 21-12-2022.....

प्रेषक :-

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, सिकहरना, ढाका।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
विश्वसरैया भवन, पाच्चा तल्ला, बिहार, पटना।


विषय :- M/R (3054) New Maintenance Police 2018 योजना हेतु आवंटन अधियाचना के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि इस प्रमंडलान्तर्गत M/R (3054) New Maintenance Police 2018 योजना के अधीन कराये गये कार्य के विरुद्ध भुगतान हेतु आवंटन अधियाचना विहित-प्रपत्र में संलग्न कर समर्पित किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
21/12/22

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,  
सिकहरना, ढाका।

  
21/12/22

**Rural Works Department**  
**Requisition Formate for Scheme Head-MR(3054) under Bihar Rural New Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)**  
**Name of the Division :- Rural Works Department, Works Div. Dhaka**

Sl.	Package No.	Name of Road	Project id as per MIS	A/A Letter No. & Date	Administrative Approval		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Amount Allocated (in Lakh)	Up-to date expenditure as per MIS	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (in km)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification on surface (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance (in Lakh)										
1	RM/EA/SIK/22/0006	Pachpakti ghatekawa road to barewa	31708602163	2090/06.05.2022	1.600	90.11000	68.32818	21.55798	19 MBD-09.12.2022	08.09.2023		3158.75	25	5	0.00	0.00	68.31554	
Total :-															0.00	0.00	68.31554	

प्रमाणित किया जाता है कि पथ में कराये गये कार्य के सभी अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन संबंधित कनीय अभियंता 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन संबंधित सहायक अभियंता एवं 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन अवाहस्तावरी यथा कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जा चुका है। कराया गया कार्य मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।

Divisional Accounts Officer  
Rural Works Div, Dhaka

Executive Engineer  
RWD (W) Div. Dhaka  
21.12.22



**FORM GFR 19-A**

(See Government of India's Decision (1) below Rule-150)  
Form of Utilization Certificate Upto the Month of upto.....

**MR-3054 (New Maintenance Policy)**

**PIU :- EE RWD (W) DIVISION DHAKA**

Sl.	Name of the Scheme	Sanction No. & Date with Amount (Rs. In Lakh)	Amount Received (Rs. In Lakh)	Particulars
1	Construction of Rural Roads Under MR-3054 (New maintenance Policy)			Certified that out of Rs. .... Lacs received the year 2022-23 in favor of Executive Engineer, R.W.D. (W), Division Dhaka a sum of Rs. .... lacks has been utilized for the purpose of MR-3054 (New Maintenance Policy) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned of Rs. .... Remaining unutilized at the end of the period under.
Total :-				

Certified that I have satisfied my self that the condition on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

  
**Divisional Account Officer**


**R.W.D. (W) Div., Dhaka**

Kind of Checks Exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conduct by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Construction material have been tested.
- Measurement have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- All other codal Formalities have been observed.

Physical Progress achieved :-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.

  
**Executive Engineer**

**R.W.D.(W) Div., Dhaka**

NAME OF CONTRACTOR: HIND CONSTRUCTION (PRO-TUFAIL AHMAD)

NAME OF ROAD: PACHPAKRI GURHENWA ROAD TO BAREWA

Date	Time Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY ROAD	Latitude	Longitude	Event
20/12/22	10: 8: 0	5	0.1	360	20.2	3600	3186 G	26.721029	85.225852	Normal
20/12/22	10: 8: 29	5	0.1	400	10.1	4000	3012 G	26.721376	85.22668	Normal
20/12/22	10: 9: 0	5	0.1	390	10.1	3900	3131 G	26.721039	85.22746	Normal
20/12/22	10: 9: 4	5	0.1	320	10.1	3200	2860 G	26.720719	85.228363	Normal
20/12/22	10: 10: 15	5	0.1	410	10.1	4100	3194 G	26.720471	85.229391	Normal
20/12/22	10: 11: 0	5	0.1	410	10.1	4100	3594 G	26.719977	85.230109	Normal
20/12/22	10: 12: 1	5	0.1	450	10.1	3200	3020 G	26.719327	85.230679	Normal
20/12/22	10: 12: 36	5	0.1	370	10.1	3700	3268 G	26.71854	85.230773	Normal
20/12/22	10: 13: 11	5	0.1	420	10.1	4200	3176 G	26.717576	85.230801	Normal
20/12/22	10: 14: 22	5	0.1	410	10.1	4100	3094 G	26.718035	85.231495	Normal
20/12/22	10: 15: 0	5	0.1	370	10.1	3700	3268 G	26.721482	85.230825	Normal
20/12/22	10: 16: 0	5	0.1	350	10.1	3500	3104 G	26.722081	85.231004	Normal
20/12/22	10: 16: 43	5	0.1	320	10.1	3902	2933 G	26.722991	85.231153	Normal
20/12/22	10: 17: 18	5	0.1	380	20.2	3800	3349 G	26.723805	85.231126	Normal
20/12/22	10: 34: 1	5	0.1	430	20.2	4300	3057 G	26.724726	85.230873	Normal
20/12/22	10: 35: 12	5	0.1	410	20.2	4100	3294 G	26.725879	85.231156	Normal
Total Length		1.600								
					Total IRI	50540				
					Avg. IRI	3158.75				

$Y = 0 * X^2 + 0.816 * X + 249$   
 $X = 3409$   
 $Y = 3030$   
 (R) RURAL ROAD  
 Good Average Poor  
 <4000 4001-5000 >5001

Subendrakr  
20.12.22  
J.E

20/12/22  
AE

20/12/22  
CF



Name of Customer :	Construction (Pro-Tufail Ahmad)
Name of Work/Road :	Pachpakri Gutherwa Road to E
Lab Job number :	5
Date :	12/20/2022
Section No. :	5


Test Date :	12/20/2022	Road Name :	Shri Gutherwa Road to Borewa
Machine No :	406	Road Type :	(A) ASPHALTIC
Start S No :		Side :	
Start E No :		Interval :	
Weather :		UV Range :	1660 To 5000 min/km
Start Location :		Dist Range :	0 To 0.34 0.02 ~ 1000 m
End Location :		Equation :	Test

Print Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File : E:\report bump dhaka\11031125.Xls. Section No. : 5. Egn : test  
Name of Customer : Hind Construction (Pro-Tufail Ahmad). Name of Work/Road : Pachpakri Gutherwa Road to



Subendasky  
20.12.22  
J.E

Naq  
20/12/22  
AS

Handed  
20.12.22  
FE